

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 150]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 10 मार्च 2010—फाल्गुन 19, शक 1931

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 मार्च 2010

क्र. एफ-15-15-2006-दस-2.—वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 6 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, अधिसूचना के दिनांक से तीन वर्ष के लिये मध्यप्रदेश राज्य वन्यप्राणी बोर्ड का पुनर्गठन निम्नानुसार करता है:—

- | | | | |
|-----|---|---|-----------|
| 1. | मान. मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन | - | अध्यक्ष |
| 2. | मान. वन मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन | - | उपाध्यक्ष |
| 3. | मान. राज्य मंत्री जी, वन, मध्यप्रदेश शासन | - | सदस्य |
| 4. | अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग | - | सदस्य |
| 5. | प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग | - | सदस्य |
| 6. | प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश, भोपाल | - | सदस्य |
| 7. | प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम, भोपाल | - | सदस्य |
| 8. | अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, सी.आई.डी. (अध्यक्ष टायगर सेल) | - | सदस्य |
| 9. | सेना का एक प्रतिनिधि जो ब्रिगेडियर से कम स्तर का अधिकारी न हो
(भारत सरकार द्वारा नामांकित किया जाएगा). | - | सदस्य |
| 10. | संचालक, पशुपालन विभाग | - | सदस्य |
| 11. | संचालक, मछली पालन विभाग | - | सदस्य |
| 12. | संचालक, वन्यप्राणी भारत सरकार या उसके प्रतिनिधि | - | सदस्य |
| 13. | बाटनिकल सर्वे ऑफ इण्डिया के प्रतिनिधि | - | सदस्य |
| 14. | जुलाजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया के प्रतिनिधि | - | सदस्य |

माननीय विधायक गण

- | | | | |
|-----|---|---|-------|
| 15. | मानवेन्द्र सिंह, विधायक, महाराजपुर; जिला छतरपुर | - | सदस्य |
| 16. | श्री रत्नेश सॉलोमन, विधायक, जवेरा | - | सदस्य |
| 17. | श्री सुदर्शन गुप्ता, विधायक, इंदौर | - | सदस्य |

वन्यप्राणियों से संबंधित अशासकीय संस्था

- | | | | |
|-----|-------------------------------|---|-------|
| 18. | विश्वप्रकृति निधि (WWF) | - | सदस्य |
| 19. | वाइल्ड लाईफ ट्रस्ट ऑफ इण्डिया | - | सदस्य |
| 20. | वन्यप्राणी संरक्षण सोसायटी | - | सदस्य |

पर्यावरण विद/संरक्षण के क्षेत्र में विशेषज्ञ

- | | | | |
|-----|---|---|------------|
| 21. | श्रीमती शशि ठाकुर, विधायक, लखनादौन | - | सदस्य |
| 22. | श्री मनोज मिश्रा, भूतपूर्व भा.व.से. अधिकारी एवं पर्यावरण तथा वन्यप्राणी विशेषज्ञ | - | सदस्य |
| 23. | श्री अभिलाष खाण्डेकर, वरिष्ठ पत्रकार एवं संपादक, दैनिक भास्कर | - | सदस्य |
| 24. | डॉ. सुरेन्द्र तिवारी, सम्पादक, नई दुनिया, वन्यप्राणी में विशेष रुचि | - | सदस्य |
| 25. | श्री जे. जे. दत्ता, भूतपूर्व प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, मध्यप्रदेश तथा वन्यप्राणी विशेषज्ञ. | - | सदस्य |
| 26. | श्री ए. पी. द्विवेदी, भूतपूर्व मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश. | - | सदस्य |
| 27. | श्री ए. एस. परिहार, से. नि., भा.व.से., एवं वन्यप्राणी विशेषज्ञ | - | सदस्य |
| 28. | डॉ. हितेश वाजपेयी, पर्यावरण विशेषज्ञ, ई-114/1, शिवाजी नगर, 6 नं. बस स्टाप, भोपाल. | - | सदस्य |
| 29. | श्री हनुमंत प्रताप सिंह, पर्यावरण एवं वन्यप्राणी विशेषज्ञ, ग्राम व पोस्ट आरामगंज, तहसील अजयगढ़, पन्ना. | - | सदस्य |
| 30. | मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, मध्यप्रदेश, भोपाल | - | सदस्य-सचिव |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. पी. शर्मा, अपर सचिव.